



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

22 पौष 1932 (श0)  
(सं0 पटना 3) पटना, बुधवार, 12 जनवरी 2011

---

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

10 जनवरी 2011

सं0 4 (न) निर्वा0-1/2009-119/न0वि0एवं.आ0वि0—चूँकि राज्य सरकार द्वारा बेगूसराय नगर निगम का गठन करने का निर्णय लिया गया है,

और, चूँकि, वैधानिक प्रावधानों के अधीन उस नगरपालिका के लिये चुनाव कराना आवश्यक हो गया है;

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 11, 2007) की धारा-441 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना की अनुशंसा पर एतद् द्वारा उपर्युक्त नगरपालिका के पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान हेतु 13 फरवरी, 2011 तिथि नियत करते हैं तथा अपेक्षा करते हैं कि मतदातागण बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की उपबंधों के अनुसार पार्षदों को निर्वाचित करें।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
गिरीश शंकर,  
प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 3-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>